### **Valiant Communications Limited**

(An ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Certified Company) Regd. Office: 71/1, Shivaji Marg, New Delhi 110015, India

Corporate Identity No.: L74899 DL1993 PLC056652 | GSTIN: 07 AAACV4250G 1ZJ T: +91-11-2592 8415, 2592 8416, 2541 0053 | F: +91-11-2543 4300, 4105 5604

E:admin@valiantcom.com | W:www.valiantcom.com



Date: September 01st 2023

BSE Limited,
Deputy General Manager
Corporate Relationship Department
Ist Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations')

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A , Regulation 47 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, please find enclosed herewith the copies of the following newspaper advertisement published for giving Notice of the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company to be held on Friday, September 29<sup>th</sup> 2023 at 10:00 a.m. (IST) through the Video Conferencing/Other Audio Visual Means:

- Financial Express in English Language (National daily newspaper) on September 01st 2023
- Jansatta in Hindi Language (Daily newspaper of the State)- on September 01st 2023

This is for your information and records.

Sincerely,
For Valiant Communications Limited

Manish Kumar Company Secretary

Encl: as above

# NPS ...

# **NETWORK PEOPLE SERVICES TECHNOLOGIES LIMITED**

Registered office: Off No.427/428/429, A- Wing, NSIL, Lodha Supremus II, Road No.22 Wagle Industrial Estate, Thane (W), Thane - 400604, Maharashtra, India CIN: L74110MH2013PLC248874, Tel: +91 120 4347137 Website: https://www.npstx.com Email:cs@npstx.com

Network People Services Technologies Limited will be held on Monday, 25 September, 2023 at 12:00 Noon (IST) through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses, as set out in the Notice convening AGM. The venue of the said Meeting shall be deemed to be the registered office of the Company situated at Off No. 427/428/429, A - Wing, NSIL, Lodha Supremus II, Road No. 22, Wagle Industrial Estate, Thane (W) - 400604, Maharashtra, India. The Company has already dispatched the Annual Report for the financial year 2022-23 along with the Notice convening AGM, through electronic mode to the Shareholders whose email addresses are registered with the Company and / or Depositories in accordance with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India. The Annual Report along with the Notice of the AGM is also available on the website of the Company at https://www.npstx.com and on the website of National Depository Services Limited (NDSL) at http://www.evoting.nsdl.com

Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 18" September, 2023 to Monday, 25" September, 2023 (both days

### Remote -voting and e-voting during AGM:

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Shareholders are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system ('Remote e-voting') provided by NSDL. The voting rights of Shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 15th September, 2023 ('cut

The remote e-voting period commences on Thursday, 21" September, 2023 at 9.00 a.m. IST and will end on Sunday, 24th September, 2023 at 5.00 p.m. IST. During this period, the Shareholders may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Those Shareholders, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cut-off date i.e. 15" September, 2023; may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or cs@npstx.com. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.

Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available a https://www.evoting.nsdl.com, under help section or contact at 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Ms. Pallavi Mhatre at the designated email id pallavid@nsdl.co.in.

https://www.npstx.com, NSDL at https://www.evoting.nsdl.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For Network People Services Technologies Limited

Place: Thane Date: 01" September, 2023

Manali Rushang Ved Company Secretary & Compliance Office

# (FORMERLY ARIHANT TOURNESOL LIMITED)

CIN No: L15315MH1991PLC326590

REGD. OFFICE: 217, ADANI, INSPIRE-BKC, SITUATED G BLOCK, BKC MAIN ROAD BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA EAST, MUMBAI, MAHARASHTRA, 400051 CORPORATE ADDRESS: - 1ST FLOOR, B.N. CORPORATE PARK, PLOT NO. 18. NOIDA -135, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH-201304. Ph: 022-69123200; Mb.: +91 9958822310

W:- www.bn-holdings.com | E: corporate@bn-holdings.com

# NOTICE OF 32™ ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

In accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 (Act) and Rule also available on the Company's website at www.bn-holdings.com and on the website

referred in the Notice of AGM or Annual Report shall be made available electronically for inspection by members upon request to the Company by sending email a corporate@bn-holdings.com

through remote e-voting system during the AGM, if not voted through remote e-voting. voting, it cannot be changed. In case of voting through remote e-voting and also e voting at the AGM, vote casted through remote e-voting will be considered final and e-

voting then you can use your existing User-ID and password for casting your vote.

The Company has appointed Mrs. Nayan Handa (FCS 11993; CP 18686), as Practicing Company Secretary, from M/s Mehta & Mehta, Company Secretaries

email id, mobile number at corporate@bn-holdings.com. The Speaker Registration will be open till Friday September 15, 2023. Member(s) holding shares at the cutoff date shall be entitle to register and participate at the AGM.

Member having any query/seeking any information are requested to write/send email to the company at least seven days in advance of AGM at corporate@bn

Shareholders holding their shares in dematerialized mode and have not updated their KYC details are requested to register/update their email address, bank account details and other KYC details with the company's RTA i.e. Bigshare Services Private Limited at shwetas@bigshareonline.com.In case of any queries or issue regarding attending AGM/e-voting, members may refer to the FAQs and e-voting manual available at download section of www.w-voting.nsdl.com or call at helpline number of NSDL at

022-48867000 or 022-24997000 or send a request at evoting@nsdl.co.in.

By order of the Board of Directors Place: Mumbai



# राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIMITED (A Government of India Enterprise) VISAKHAPATNAM STEEL PLANT

WORKS CONTRACTS DEPARTMENT **EOI**: Repair of 12 MW Gas Expansion Turbine Rotor

RINL-Visakhapatnam Steel Plant invites Expression of Interest (EOI) from prospective bidders having expertise, experience, resources and interest to take up the job of "Repair of 12MW Gas Expansion Turbine Rotor" in Thermal Power Plant (TPP). The detailed EOI document can be downloaded from website www.vizagsteel.com under the menu Tenders/ Works Contracts, through ERP SRM portal and Govt. website.

**EOI No.**: VSP/WC 2600008493/EOI2023-24, Dated 26-08-2023 Name of the Work: Repair of 12 MW Gas Expansion Turbine Rotor

Submission dead line: Before 3.00PM on 29/09/2023

Bid Opening Date & Time: After 3.00PM on 30/09/2023 Interested and eligible Persons/Agencies may submit their EOI with all relevant details and supporting documents as sought in the EOI document

on or before the deadline i.e. 29/09/2023 at 3.00PM. Contact person for Technical Queries: Sri S Pani, GM(TPP)I/c. Email: spani@vizagsteel.com Mobile No.+91 9949826968

**GENERAL MANAGER (WC)I/C** 

For more details & corrigendum please visit regularly www.vizagsteel.com

## | Advani Hotels & Resorts (India) Limited

Regd. Office: 18A & 18B, Jolly Maker Chambers II, Email ID: cs.ho@advanihotels.com

### NOTICE OF 36th ANNUAL GENERAL MEETING OF **ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LIMITED**

the Members of Advani Hotels and Resorts (India) Limited ('Company') will be held on Monday, September 25, 2023 at 2.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio-Visual Means ('OAVM') in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') without physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice of the 36th AGM dated August

the 36th AGM, along with the Annual Report for the Financial Year 2022 2023, will be sent through electronic mode only to those Members, whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agents ('RTA') / Depository Participants. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide said MCA and SEBI Circulars. Members can join and participate in the 36th AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the 36th AGM and the manner of participation in the remote e-voting or casting vote through e-voting system during the 36th AGM are provided in the Notice of the 36th AGM dated August 10, 2023.

counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act. 2013. The Notice of the 36th AGM along with Annual Report will also be available on the Company's website viz. https://www caravelabeachresortgoa.com/, website of National Depository Services Limited ("NSDL") viz. www.evoting.nsdl.com and on website of Stock Exchanges (BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) at viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

The Company has fixed Monday, September 18, 2023 as 'Cut-off date' for determining entitlement of members for attending the 36th AGM and e-voting for the Financial Year ended March 31, 2023.

In order to register / update their email address, the members holding shares in demat form are requested to register the same with their respective Depository Participant(s) and members holding shares in physical form are requested to furnish the same to the Company's RTA i.e. Datamatics Business Solutions Limited. The detailed procedure for registration / updation of e-mail address is provided in the Notice of the 36th AGM.

The members will have an opportunity to cast their vote remotely and during the 36th AGM on the business as set forth in the Notice of the 36th AGM through the electronic voting system. The manner of remote e-voting and e-voting during the 36th AGM are provided in the Notice of the 36th AGM.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Sanieev Yaday or send an email to evoting@nsdl.co.in or call on 022 - 2499 7000.

Place: Mumbai



Vikram Soni **Company Secretary & Compliance Officer** 

# **GRAVISS HOSPITALITY LIMITED**

CIN: L55101PN1959PLC012761 Regd office: Plot no. A4 & A5, Khandala MIDC, Phase II, Kesurdi,Khandala, Satara- 412 801 (Maharashtra).

### GRAVISS Website: www.gravisshospitality.com Tel. 022-62513131 Email.: investors.relations@gravissgroup.com NOTICE OF THE SIXTY SECOND ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 62nd Annual General Meeting (AGM) of the members of Graviss Hospitality Limited (the Company) will be held on Wednesday, September 27, 2023at 12:30 PM (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, and, Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

Process of dispatch of the Notices of the AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 has been duly completed and sent vide electronic mode, on August 31, 2023, to those Members whose email IDs are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ('RTA')/ Depository Participant ('DP'), and physical copies shall be sent to those shareholders who request for it. The AGM Notice, the Annual Report and other information can also be accessed from the website of the Company at www.gravisshospitality.com / and on the website of the stock exchange at www.bseindia.com and of Link Intime India Private Limited ("LIIPL") i.e. https://instavote.linkintime.co.in.

The business as set forth in the AGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form of e-Voting. The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited (LIIPL) to provide the remote e-voting facility on InstaVote and the e-voting system on the date of the AGM on Insta Meet. Remote E-voting period starts on Sunday, 24th September, 2023 (09:00 A.M. IST) and ends on Tuesday, 26th September, 2023 (05:00 P.M. IST). The remote e-voting module will be disabled by Link Intime India Pvt. Ltd. for voting thereafter.

The Company has appointed Mr. Martinho Ferrao. (holding membership no. FCS 6221), Proprietor of M/s. Martinho Ferrao & Associates, Company Secretaries, to act as the Scrutinizer, to scrutinize the entire e-voting process (i.e. remote e-voting and e-voting at the AGM) in a fair

The voting rights of Shareholders shall be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name of Shareholder/Beneficial Owner as on 20th September, 2023. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the notice and holds shares as of the cut-off date may follow the procedure for remote e-voting as enumerated in detail here in above. They may also refer to the FAQs and e-voting manual available at www.instavote.linkintime. co.in or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or investors. relations@gravissgroup.com

Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

Further, as per Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we would like to inform you that the Register of Member and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 21, 2023 to Wednesday, September 27, 2023(both days inclusive) for the purpose of the 62nd AGM of the

For detailed process and manner to join the AGM, please refer the AGM

In case the shareholders have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us: Tel: 022 - 49186000. The Result of e-voting shall be declared within two working days of the

conclusion of the AGM and the same, along with the consolidated Scrutinizer's Report, shall be placed on the website of the Company (www.gravisshospitality.com), of Link Intime India Private Limited ("LIIPL") i.e. <a href="https://instavote.linkintime.co.in">https://instavote.linkintime.co.in</a> and shall be communicated to BSE Limited.

Romil Ratra **CEO and Whole Time Director** (DIN: 06948396)

For Graviss Hospitality Limited,

Sd/-

Date: 31.08.2023

Place: Noida



McLEOD RUSSEL INDIA LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L51109WB1998PLC087076 Regd. Office: Four Mangoe Lane, Surendra Mohan Ghosh Sarani, Kolkata-700 001 Telephone: 033-2210-1221, Fax: 033-2248-3683 E-mail: administrator@mcleodrussel.com, Website: www.mcleodrussel.com

NOTICE

### Sub: Transfer of Equity Shares and unclaimed Dividends of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

This notice is given pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("the Rules").

The Rules, inter alia, contain provisions for transfer of shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government.

Individual notice has been sent the shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF during the FY 2023-24. Accordingly, the concerned shareholders are requested to lodge their claim for the said dividend on or before 7th September, 2023, failing which the shares shall be transferred to the IEPF on an appropriate date without further notice in the following manner: In case the shares are held

 In physical form New share certificates(s) will be issued and transferred in favour of IEPF on completion of necessary formalities. The original share certificate(s) which stand registered in the name of shareholder will be deemed cancelled

and non negotiable

action for transfer of shares lying in shareholder's demat. account in favour of IEPF The shareholders may note that in the event of transfer of shares and the unclaimed dividends to IEPF, concerned shareholder (s) are entitled to claim

The Company shall inform depository by way of corporate

the same from IEPF by submitting an online application in the prescribed Form IEPF 5 available on the website www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same, duly signed to the Company at its Registered Office along with requisite documents enumerated in Form IEPF 5. The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority on its website at www. mcleodrussel.com.

https://www.mcleodrussel.com/investors/iepf suspense account.aspx# to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be transferred to IEPF Authority. In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact Mr.S.K.Choubey, Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., Unit: McLeod

Shareholders are requested to refer to the web

Russel India Limited, 23, R.N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata 700 001. Tel :+91 33 2248 2248 / 2243 5029, Fax :+91 33 2248 4787, E mail mdpldc@yahoo.com. For McLeod Russel India Limited

Alok Kumar Samant

© CSL Finance Limited

Place: Kolkata Company Secretary Date: 31st August, 2023 M. No. F9347

# CSL Finance Limited

CIN: L74899DL1992PLC051462

In demat form

Read. Office: 410-412.18/12. 4th Floor, W.E.A. Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi -110005

Tel: 0120-4290650 , Email: investor@cslfinance.in. Website: www.cslfinance.in

Notice is hereby given that the Thirty-First (31") Annual General Meeting ("AGM") of CSL Finance Limited ('Company') will be held on Saturday, September 23, 2023 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The Company has sent out the Notice of 31" AGM and Annual Report, including the Audited Financial Statements for the Financial Year 2022-23, on Thursday, August 31, 2023. through electronic mode to the shareholders whose email Id's are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent or with the Depository Participants in accordance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021 21/2021, 02/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 12, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HODDHS/P/CIR/2022/0063 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('The Act') and the SEBI (LODR) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'). The copy of the Annual Report and AGM notice is also available on the Company's Website at www.cslfinance.in, website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL at

The Company is pleased to provide remote e-Voting facility ("remote e-voting") of NSDI to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM Additionally, the Company shall also provide the facility of e-voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting before the AGM/ e-voting during the AGM is provided in the AGM notice. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection at www.cslfinance.in.

# Instructions for Remote E-voting and E-Voting

 Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions as set out in the Notice of the 31" AGM using electronic voting system ("remote e-voting") provided by NSDL Member's holdings share either in physical form or dematerialized form, as on Saturday, September 16, 2023 ("Cut-Off Date") can cast their vote through remote evoting system. A person whose name is recorded in the register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Saturday, September 16, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-

The remote e-voting period will commence on Wednesday, September 20, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Friday, September 22, 2023 at 5:00 P.M.(IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

 Members attending the AGM through VC/OAVM but who have not casted their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM (when window for e-voting is activated upon instructions of the Managing Director/ Company Secretary). Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM through VC/OAVM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting. Further members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the

Helpdesk details for individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL, is provided below

### Helpdesk details Individual Shareholders | Members facing any technical issue in login can contact NSDI holding securities in helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or demat mode with NSDL | call at toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

Individual Shareholders Members facing any technical issue in login can contact CDSI holding securities in helpdesk by sending a request at evoting@cdsl.co.in o demat mode with CDSL | contact at 022-23058738 or 022-23058542-43

Instructions for members for attending the AGM though VC/OAVM and for remote e-voting is detailed in the Notice of the 31" AGM dispatched to the members on August 31, 2023.

### Manner of registering / updating e-mail address In the case of Shares held in physical mode:

The shareholders may please email to RTAat investor@masserv.com or the Company at investor@cslfinance.in

ii. In the case of Shares held in Demat mode:

The shareholders may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP

# Book Closure & Payment of Dividend

 Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of the Members and the share transfer books of the Company will remain closed from Sunday, September 17. 2023 to Saturday, September 23, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and Final Dividend. The Board of Directors, at its meeting held on May 29, 2023, has recommended a

dividend @ 25% i.e., ₹2.50/- (Rupees Two and Fifty Paisa only) per equity share of ₹10/- each for the financial year ended March 31, 2023. Dividend, if approved at the meeting, will be paid within a period of 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear on the Register of Members on the close of Saturday, September 16, 2023 subject to deduction of tax at source, wherever applicable. iii. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable at the hands of

shareholders w.e.f. 1" April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to members at prescribed rates. For the prescribed rates for various categories the members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments there to. The members are requested to update their PAN with Registrar and Transfer Agents (in case of shares held in physical mode) and depository participants (in case shares held in demat mode). However, no tax shall be deducted on the dividend payable to a resident individual shareholder if the total dividend to be received during FY 22-23 does not exceed Rs. 5,000/-. A resident individual shareholder with PAN who is not liable to pay income tax submit a yearly declaration in Form 15G/15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at Company's RTA at investor@masserv.com Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. iv. The Company provides the facility to the Members for remittance of dividend directly in

electronic mode through National Automated Clearing House (NACH). Members holding shares in physical form and desirous of availing this facility of electronic remittance are requested to provide their latest bank account details (Core Banking Solutions Enabled Account Number, 9 digit MICR and 11 digit IFSC Code), along with their Folio Number, to RTA. Members holding shares in dematerialized form are requested to provide the said details to their respective Depository Participants. v. In line with the MCA circulars, in case the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by the electronic mode, due to non-availability of their latest bank account

details (Core Banking Solutions Enabled Account Number. 9 digit MCR and 11 digit IFSC Code), the Company shall dispatch the dividend warrant /cheque to such shareholders by post For CSL Finance Limited

> Preeti Gupta (Company Secretary and Compliance Officer)

Office address

New Delhi

Mumbai, August 31, 2023

TVS MOTOR COMPANY LIMITED

Registered Office: "Chaitanya" No.12 Khader Nawaz Khan Road Nungambakkam Chennai - 600006 CIN: L35921TN1992PLC022845 Website: tvsmotor.com

Email: contactus@tvsmotor.com Ph:044 28332115 Notice of loss of share certificates

NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) issued by the company are stated to have been lost or misplaced or stolen and the registered holders / the egal heirs of the registered holders thereof have applied to the company for issue of duplicate share certificate(s) Folio no. Share cert. No. of Name of registered holder Distinctive shares nos. nos.

242500340-500 SUHAS VASUDEV GHOTAGE S7340 19893 PRASANNA VASUDEV GHOTAGE 242500839 The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the above share certificates. Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) with the company at its registered office at the address given above within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificates For TVS Motor Company Limited

> KS Srinivasan Company Secretary

### VALIANT COMMUNICATIONS LTD. CIN: L74899DL1993PLC056652

Regd. Office: 71/1, Shivaji Marg, New Delhi-110015 Phone: +91-11-25928415, 25928416

NOTICE is hereby given that the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting ('AGM') of the Members of

Valiant Communications Limited ('Company') will be held on Friday, 29th September, 2023

Email: investors@valiantcom.com, Web: www.valiantcom.com NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

Place: Chennai

Date: 01/09/2023

August 18<sup>th</sup> 2023.

at 10:00 a.m. (IST) through the Video Conferencing ('VC')/Other Audio Video Means ('OAVM'), without the physical presence of the Members at the meeting, in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013, Rules and applicable Circulars issued by statutory authorities. The Register of Members and the Share Transfer Books will remain closed from Saturday. Sept. 23<sup>rd</sup> 2023 to Friday. Sept. 29<sup>th</sup> 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM. In compliance with applicable Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report has been sent by email to all the members whose email ids are registered with the Company/ Registrar and Share Transfer Agents (RTA)/ Depository Participants (DPs). The emailing of Notice of the AGM to all members has been completed on Aug. 31st 2023. The members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

The Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the AGM to its members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be transacted at the AGM by electronic means and the facility being provided by Link Intime India Private Limited (LIIPL). Facility for e-Voting at the AGM will be made available to those Members who present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Detailed process of remote e-Voting, joining the AGM through VC/OAVM and e-Voting at the AGM by the members, has been provided in the Notice of the AGM. All the Members are informed that 1. The businesses as set forth in the Notice of the 30th AGM will be transacted through voting by electronic means in the form of e-Voting.

2. The remote e-Voting shall commence on Tuesday, Sept. 26th 2023 (10:00 a.m. IST) and ends on Thursday, Sept. 28th 2023 (05:00 p.m. IST). The remote e-Voting facility shall be disabled by LIIPL thereafter and once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently. 3. Any person whose name is recorded in the register of members as on the cut-off date

e-Voting at the AGM. 4. Any person who becomes member of the Company after sending the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain login ID and password by sending a request at enotices@linkintime.co.in.

i.e. Friday, Sept. 22<sup>nd</sup> 2023, only shall be entitled to vote through remote e-Voting

5. The Annual Report along with Notice of the AGM can be downloaded from the Company's website at www.valiantcom.com and on the website of the BSE Limited at www.bseindia.com and LIIPL website at https://instavote.linkintime.co.in. Members who need assistance before or during the AGM, for any grievances connected

with the facility for e-Voting, they can address them to instameet@linkintime.co.in or call on +91 (022) 4918 6175.

This Notice is in continuation of erstwhile Notice dated August 17th 2023 published on For Valiant Communications Limited

Manish Kumar

Place: New Delhi Company Secretary Date: August 31st, 2023 ICSI Membership No. A16483

Welspun ENTERPRISES WELSPUN ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch,

Guiarat-370 110. Tel.: + 91 2836 662222: Fax: + 91 2836 279010 Corporate Office: Welspun House, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai-400 013. Tel.: + 91 22 6613 6000; Fax: + 91 22 2490 8020 Website: www.welspunenterprises.com; Email: companysecretary\_wel@welspun.com

NOTICE Notice is hereby given that 29" Annual General Meeting ("AGM") of the members of the

Company will be held on Friday, September 22, 2023 at 04:00 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM only through E-Voting facility. The dispatch of notice of the AGM through emails have been completed on Thursday, August 31, 2023. The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the applicable provisions

of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder read with Circular dated

April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 January 13, 2021 and December 28, 2022

respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Regulations" read with SEBI Circular dated May 13, 2022 and January 05, 2023. Facility for appointmen of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM. In Compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report 2022-23 have been sent to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at (www.welspunenterprises.com), website of the

India Limited (www.nseindia.com), and on the website of the National Securities Depository Limited (www.evoting.nsdl.com). The Members who have not registered their email address and holding Equity Shares in Demat form are requested to register their e-mail address with the respective Depositories and the Members holding Equity Shares in physical form may get their e-mail addresses registered with RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. The Members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, mobile number and

stock exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of

e-mail id. etc. The Company has appointed M/s. Mihen Halani & Associates, Practicing Company Secretary (Certificate of Practice No.12015), Mumbai as Scrutinizer to scrutinize the voting through E-Voting process.

Members holding share in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date i.e Friday, September 15, 2023, may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of NSDL ('Remote E-

Voting'). Members are hereby informed that:

(a) The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through Remote E-Voting or E-Voting system during the AGM; (b) Remote E-Voting will commence on **Tuesday, September 19, 2023 at 9:00 a.m.** and ends on Thursday, September 21, 2023 at 5:00 p.m.;

Remote E-Voting will not be allowed beyond the said date and time; (d) The voting rights of members shall be in proportion to their share of paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date / record date of Friday, September

(c) Remote E-Voting module will be disabled on September 21, 2023 at 5:00 p.m i.e.

(e) A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to vote by Remote E-Voting or by E-Voting system during the AGM;

(f) Members may note that the facility for voting will also be made available during the AGM, and those Members who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through Remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E-Voting system

(g) The members who have cast their vote by Remote E-Voting prior to the AGM may also

attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. (h) Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holds shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 15, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to the Company/Registrar & Transfer Agent a companysecretary\_wel@welspun.com/ rnt.helpdesk@linkintime.co.in. However, i you are already registered with NSDL for Remote E-Voting then you can use your

existing user ID and password for casting your vote: (i) Members may contact Ms. Nidhi Tanna, Company Secretary, at Welspun House, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, or email at companysecretary\_wel@welspun.com or call on +91 (022) 66136000 between 11:00 a.m. and 6:00 p.m. on any working day.

(j) If you have any gueries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com., under help section or write an email to evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

### Notice to the shareholders who have not en-cashed dividend/ fractional amount for last seven consecutive years.

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Auditing, Transfer and Refund) Rules, 2016 which have come into effect from September 7, 2016 and amended from time to time, this is to inform to those shareholders who have not en-cashed the dividend fractional amount or who's dividend remained unclaimed for last seven consecutive years then those shares / amount shall be transferred to the "Investor Education and Protection Fund" (IEPF) i.e. a fund constituted by the Government of India under Section 125 of the Companies Act, 2013. The names of such shareholders and their folio number or DP ID Client ID will be available on the website of the Company at www.welspunenterprises.com. To claim unpaid / unclaimed dividend/ fractional amount or in case you need any information/ clarification, please write to or contact to the Company's Registrars and Transfer Agent or The Company Secretary of the Company at the Registered Office or at the Corporate

For Welspun Enterprises Limited

Nidhi Tanna **Company Secretary** ACS - 30465

financialexp.epapr.in

Date: 31.08.2023

NOTICE is hereby given that the 10th Annual General Meeting (AGM) of Members of

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 ("Act") and the applicable rules framed thereunder that the inclusive) for the purpose of 10" AGM of the Company.

The Shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may

In case of any queries pertaining to e-voting, Shareholders may refer to the Frequently

The details of the AGM are available on the website of the Company a

**BN HOLDINGS LIMITED** 

Notice is hereby given that the 32th (Thirty Second) Annual General Meeting of the members of "BN HOLDINGS LIMITED" (FORMELY ARIHANT TOURSEL LIMITED) (CIN:L15315MH1991PLC326590) will be held on Friday, September 22, 2023 a 11:00 A.M. through Video conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OVAM") to transact the business as set out in the Notice convening the AGM.

framed thereunder and SEBI (Listing Obligations &, Disclosure requiremen regulations), 2015 read with General Circular Nos.10/2022, December 28, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate affairs ("MCA Circular/s"), and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2023/4 dated January 5th, 2023 Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), the Notice of AGM and Annual Report have been sent in electronic mode only to the members whose e-mail addresses are registered with the company/Depository Participants. The requirements of sending physical copy of the Notice of 32" (Thirty Second) Annual General Meeting (AGM) and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular/s. The electronic dispatch of Annual Report to the members has been completed on August 31, 2023. The said Annual Report including 32" AGM Notice is

of stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM and

In compliance with the provisions of Section 108 and 110 of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the 'Act') read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI Listing Regulations"), Secretarial Standards on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide remote e-voting to the members, to vote from the place other than venue of AGM("remote e-voting"). The company is providing facility to members to cast their vote remotely, using electronic voting system("remote e voting") for participation in AGM through VC/OVAM facility and remote e-voting during AGM through National Securities Depositories Limited ("NSDL"). The notes to Notice of AGM includes the procedure/instructions for attending AGM through VC/OVAM remote e-voting by members holding shares through dematerialize mode and physical mode and for members who have not registered their email addresses. Members of the company under category of Institutional Shareholders are encouraged to attend and participate in the AGM through VC/OVAM and vote through remote e-voting. The members participating in the AGM through VC/OVAM facility shall be eligible to vote Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date Friday, September 15, 2023 shall be entitled to cast vote through remote e-voting or attend the meeting through VC/OVAM and cast vote at AGM. The voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on 'Cut-off date.' The remote e-voting shall commence on Monday, September 18, 2023 at 9:00A.M.(IST) and end on Thursday, September 21 2023 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL fo voting thereafter. Once the vote has been cast by the shareholder through remote e

voting at the AGM will not be considered. Any member who acquires shares and become member after dispatch of notice of AGM and holding shares as of cut-off date i.e. Friday, September 15, 2023 may obtain login id and password by sending email at e-voting@nsdl.com o shwetas@bigshareonline.com. However, you are registered with NSDL for remote e

having their head office at Mumbai as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in fair and transparent manner. Members seeking any information and intent to ask any question during the AGM may register themselves by mentioning their name demat account number/folio number

For BN Holdings Limited SD/-Reetika Mahendra Place: Mumbai Company Secretary& Compliance Officer **Date: August 31, 2023** 



Nariman Point Mumbai, 400021. Tel.: 022-22850101 Website: https://www.caravelabeachresortgoa.com

NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting ('AGM') of

In accordance with the applicable MCA and SEBI Circulars, the Notice of

The Members attending the meeting through VC / OAVM facility shall be

**Date: August 31, 2023** 

### एवन मकैन्टाइल लिमिटेड

जनसता

रजि. कार्यालयः अपर बेसमेंट, स्मार्ट भारत मॉल. प्लॉट नंबर I-2. सेक्टर - 25ए, नोएडा (उत्तर प्रदेश-201301) फोन: 0120-3355131 CIN: L17118UP1985PLC026582

### भदस्या का इ-मल पत अपडट करान हेतु सूचना तथा अन्य जानकारी

काविड-19 महामारों के जारी रहने के मद्दनजर, सामाजिक दूरों का पालन किया जाना एक मानक है आ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तत्पश्चात परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर 2021, परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक दिसंबर 14, 2021 और परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 05 मई, 2022 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र') और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') ने अपने परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (जिसे 'सेबी परिपत्र' कह जाता है) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विज्अल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') आयोजित करने की अनुमित दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ('सेबी सुचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में और एमसीए परिपत्र तथा सेबी परिपत्र के अनुसार, कंपनी की आगामी 38वीं एजीएम बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को दोपहर 01:30 बजे (भा.मा..) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं।

उपरोक्त एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के अनुसार वित्त वर्ष 2022-2023 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ 38वीं एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसे सदस्यों को भेजी जायेगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') या डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट ('डीपी') के पार पंजीकृत हैं। कम्पनी पूर्व के व्यवहारों की तरह ही अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलबध करा रही है।

यदि आपका ई-मेल आईडी कम्पनी/आरटीए या डीपी/डिपॉजिटरी के पास पहले से ही पंजीकृत हैं, तो वित्त वर्ष 2022–23 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई–वोटिंग के लिये लॉगिन विवरणों के साथ एजीएम की सुचना आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जायेगी। यदि आपने कम्पनी/आरटीए या डीपी/डिपॉजिटरी के पास अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया वित्त वर्ष 2022-2023 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लॉगिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत नीचे दिये गये विवरणों का अनुपालन

नंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को विधिवत भरे <u>हु</u>ए फॉर्म नंबर आईएसआर 1 में एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र admin@mcsregistrars.com प भेजें, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.avonmercantile.co.in से Investor Relation टैब के तहत डाउनलोड किया जा सकता है।

कृपया डीपी से सम्पर्क करें और डीपी द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता तथा बैंक धारिता खाता विवरण पंजीकृत करायें।

# ई-वोटिंग सूचनाः

कंपनी अपने शेयरधारकों को एनएसडीएल द्वारा व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सेवाओं के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके संबंध में विवरण एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट www.avonmercantile.co.in पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.avonmercantile.co.in पर और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड की वेबसाइट www.cse-india.com भी उपलब्ध होगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। किसी भी प्रश्न के मामले में. सदस्य कंपनी को चिह्नित प्रति के तहत ऊपर उल्लिखित पते और ई–मेल आईडी

पर आरटीए से संपर्क कर सकते हैं या लिख सकते हैं। एवन मर्कंटाइल लिमिटेड के लिए

स्थानः नोएडा दिनांक: 31.08.2023

CSL Finance Limited



दिशा सोनी

कंपनी सचिव

CIN: L74899DL1992PLC051462 Regd. Office: 410-412,18/12, 4" Floor, W.E.A.

Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi -110005 Tel: 0120-4290650 , Email: investor@cslfinance.in, Website: www.cslfinance.in

Notice is hereby given that the Thirty-First (31°) Annual General Meeting ("AGM") of CSL Finance Limited ('Company') will be held on Saturday, September 23, 2023 at 12:00 Noon (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM.

The Company has sent out the Notice of 31" AGM and Annual Report, including the Audited Financial Statements for the Financial Year 2022-23, on Thursday, August 31, 2023, through electronic mode to the shareholders whose email Id's are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent or with the Depository Participants in accordance with the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022 and 10/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022 and December 12, 2022 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HODDHS/P/CIR/2022/0063 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular') and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('The Act') and the SEBI (LODR) Regulations, 2015 ('SEBI Listing Regulations'). The copy of the Annual Report and AGM notice is also available on the Company's Website at www.cslfinance.in, website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL at

The Company is pleased to provide remote e-Voting facility ("remote e-voting") of NSDL to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of the AGM. Additionally, the Company shall also provide the facility of e-voting during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting before the AGM/ e-voting during the AGM is provided in the AGM notice. The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM shall be available for inspection at www.cslfinance.in.

# Instructions for Remote E-voting and E-Voting

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all the resolutions as set out in the Notice of the 31" AGM using electronic voting system ("remote e-voting") provided by NSDL Member's holdings share either in physical form or dematerialized form, as on Saturday, September 16, 2023 ("Cut-Off Date") can cast their vote through remote evoting system. A person whose name is recorded in the register of Members or in the Register of Beneficial Owner maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Saturday, September 16, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-

The remote e-voting period will commence on Wednesday, September 20, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Friday, September 22, 2023 at 5:00 P.M.(IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member cannot modify it subsequently.

Members attending the AGM through VC/OAVM but who have not casted their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the AGM (when window for e-voting is activated upon instructions of the Managing Director/ Company Secretary). Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM through VC/OAVM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting. Further members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of the

Helpdesk details for individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL, is provided below:

# Helpdesk details

Individual Shareholders | Members facing any technical issue in login can contact NSDL holding securities in helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or demat mode with NSDL | call at toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 Individual Shareholders | Members facing any technical issue in login can contact CDSL

Instructions for members for attending the AGM though VC/OAVM and for remote e-voting is detailed in the Notice of the 31" AGM dispatched to the members on August 31, 2023.

holding securities in helpdesk by sending a request at evoting@cdsl.co.in or

### Manner of registering / updating e-mail address In the case of Shares held in physical mode:

The shareholders may please email to RTA at <a href="mailto:investor@masserv.com">investor@masserv.com</a> or the Company at investor@cslfinance.in

demat mode with CDSL | contact at 022-23058738 or 022-23058542-43

In the case of Shares held in Demat mode:

The shareholders may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP

# **Book Closure & Payment of Dividend**

Notice is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of the Members and the share transfer books of the Company will remain closed from Sunday, September 17, 2023 to Saturday, September 23, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and Final Dividend.

i. The Board of Directors, at its meeting held on May 29, 2023, has recommended a dividend @ 25% i.e., ₹2.50/- (Rupees Two and Fifty Paisa only) per equity share of ₹10/- each for the financial year ended March 31, 2023. Dividend, if approved at the meeting, will be paid within a period of 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear on the Register of Members on the close of Saturday, September 16, 2023 subject to deduction of tax at source, wherever applicable. ii. Pursuant to Finance Act, 2020, dividend income will be taxable at the hands of

shareholders w.e.f. 1" April, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to members at prescribed rates. For the prescribed rates for various categories the members are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments there to. The members are requested to update their PAN with Registrar and Transfer Agents (in case of shares held in physical mode) and depository participants (in case shares held in demat mode). However, no tax shall be deducted on the dividend payable to a resident individual shareholder if the total dividend to be received during FY 22-23 does not exceed Rs. 5,000/-. A resident individual shareholder with PAN who is not liable to pay income tax submit a yearly declaration in Form 15G/15H, to avail the benefit of non-deduction of tax at Company's RTA at investor@masserv.com Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. The Company provides the facility to the Members for remittance of dividend directly in

electronic mode through National Automated Clearing House (NACH). Members holding shares in physical form and desirous of availing this facility of electronic remittance are requested to provide their latest bank account details (Core Banking Solutions Enabled Account Number, 9 digit MICR and 11 digit IFSC Code), along with their Folio Number, to RTA. Members holding shares in dematerialized form are requested to provide the said details to their respective Depository Participants.

In line with the MCA circulars, in case the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by the electronic mode, due to non-availability of their latest bank account details (Core Banking Solutions Enabled Account Number, 9 digit MCR and 11 digit

IFSC Code), the Company shall dispatch the dividend warrant /cheque to such shareholders by post For CSL Finance Limited

क्लिक्स कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिभिटेड पंजीकृत कार्यालयः अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नं. 23, 5वीं मंजिल. गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 कब्जा नोटिस (परिशिष्ट IV) नियम 8(3)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हि प्रवर्तन अधिनियम, 2002(2002 का 54) (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) के तहत विलक्स कैंपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (विलक्स) कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विधिवत निगमित और पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालयः अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉ नंबर 23, 5वीं मंजिल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 है, के तहत अधि त अधिकारी होने के नाते और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठिए अभिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 15 जून, 2023 व एक मांग नोटिस जारी कर

**1. सुनीता देवी पत्नी राजेंद्र सिंह,** प्लॉट नं.—आर2—एफ—908 / 12 तीसरी मंजिल केएच नं.—50 / 1 , गौतम बुद्ध मार्ग, राजनगर पार्ट—II , छोटीयाल मोहल्ला, पालम गांव, दक्षिण पश्चिम दिल्ली 110045, यहां मीः— डब्ल्यूजेंड 390 / 5१

2. राजेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय राजा राम, <sub>प्लॉट</sub> नंबर-आर2-एफ-908/12 तीसरी मंजिल केए नंबर—50 / 1 गीतम् बुद्धः मार्गः राजनगरं पार्ट—2 पालम् दिल्ली के पास—110045, यह भी:—डब्ल्यूजेड 390 / 5ई, छोटीयाल मोहल्ला, पालम गांव, दक्षिण पश्चिम दिल्ली 110045 **3. अभिषेक ज्वैलर्स**, मकान नं. 390 / 5 ई—पोल नंबर—101 पालम नई दिल्ली—110045

। उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से साठ (60)के मीतर नोटिस में उल्लिखित राशि यार्न 13 जून–2023 के अनुसार रू.26,13.379.01 / — (छब्बीस लाख तेरह हजार तीन सी उनहत्तर रूप और केवल एक पैसा) के साथ लागू ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए कहा था। ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्दवा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के सा पठित उक्त अधिनियम की घारा 13 की उप धारा (4) के तहत उसे पदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 29 अगस्त 2023 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणकर्ता और आम जनता को एतदवारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर विलक्स को 13-जुन-202. के अनुसार रु.26.13.379.01 /— (क्रबीस नास्य तेरह हजार तीन सी उनहत्तर रुपये और केवल एव पैसा)की एक राशि के साथ लागू ब्याज और अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा।

प्रतिभृति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धार (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल सपात्त/सुराक्षत सपात्त का विवरण इस प्रकार हः

गांव पालम के राजस्व एस्टेट, दिल्ली राज्य दिल्ली और कॉलोनी जिसे राज नगर–द्वितीय, गौतम बृद्ध मार्ग, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली 110045 के नाम से जाना जाता है में स्थित निर्मित संपत्ति संख्य आरजेड-एफ-908 / 12 से बाहर छत के बिना तीसरी मंजिल, भूमि क्षेत्र माप 58.527 वर्ग मीटर अर्था 70 वर्गगज, स्वसरा नं. 50/1/1 से बाहर वाली सम्पत्ति का वह समस्त टुकड़ा और अंश। पूर्व–अन्य संपत्ति पश्चिम – अन्य संपत्ति, उत्तर –18 फुट सड़क , दक्षिण अन्य प्लॉट,

दिलांकः 29-08-2023 प्राधिकृत अधिकारी विलक्स कैपिटल सर्विसेन प्राइवेट लिमिटे खानः दिल्ली

### वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1993PLC056652

पंजीकृत कार्यालय : 71/1, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 दूरभाष : +91-11-25928415, 25928416

ई-मेल : investors@valiantcom.com, वेब : www.valiantcom.com

तिद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों, नियमों एवं विधिक प्राधिकर

## वार्षिक आम बैठक की सूचना

द्वारा जारी प्रयोज्य परिपत्रों के अनुसार बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 को 10.00 बजे पर्वा. (भा.मा.स.) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित कीजिए। सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ एजीएम के उद्देश्य से शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 से शुक्रवार, 29 सितम्बर, 2023 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। प्रयोज्य परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सूचना उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गयी है जिनके ई-मेल पते कम्पनी/रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी पीर्टीसिपेंटस (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों के पास एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने का कार्य 31 अगस्त, 2023 को समाप्त कर लिया गया है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणन अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी।

कम्पनी एजीएम में प्रस्तावित होने वाले समस्त संकल्पों के लेन-देन पर लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा प्रावधानित सुविधा तथा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के उपलब्ध करायी जायेगी जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे। ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने तथा सदस्यों द्वारा एजीएम में ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध करायी गयी है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि : 1. 30वीं एजीएम में निर्धारित प्रकार्य का लेन-देने ई-वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जायेगा।

रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 (10.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) को प्रारम्भ होगी और गुरुवार, 28 सितम्बर, 2023 (05.00 बजे अप. भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग सुविधा एलआईआईपीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी और संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 22 सितम्बर, 2023 तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान का पात्र होगा कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह enotices@linkintime.co.in पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी

की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एलएलआईपीएल की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों को एजीएम से पूर्व या इसके दौरान ई–वोटिंग सुविधा से सम्बन्धित कोई शिकायत है तो वे इसें instameet@linkintime.co.in पर सुचित कर सकते हैं अथवा +91 (022) 49186175 पर कॉल

सुचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.valiantcom.com तथा बीएसई लिमिटेड

यह सूचना 18 अगस्त, 2023 को प्रकाशित पूर्व की सूचना दिनांक 17 अगस्त, 2023 की निरन्तरता में है। कृते वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 31 अगस्त, 2023

मनीष कमार कम्पनी सचिव आईसीएसआई सदस्यता सं. A16483

# पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड

PARAMOUNT CABLES रजि. कार्यालयः केएच-433, मौलसारी एवेन्यू, वेस्टेंड ग्रीन्स, रंगपुरी, नई दिल्ली-110037

फ़ोनः +91-11-45618800, फैक्सः +91-11-25893719 / 20 ई-मेलः pcl@paramountcables.com, वेबसाइटः www.paramountcables.com

# 29वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

एतद्दवारा नोटिस दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") के साथ पठित सामान्य परिपत्र 14 / 2020, 17 / 2020, 20 / 2020, 02 / 2021, 19 / 2021, 21 / 2021 दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसम्बर 2021 एवं 14 दिसम्बर , 2021, क्रमशः उसके बाद कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा (इसके बाद सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में जाना जाता है) जारी परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 05 मई, 2022, परिपत्र संख्या 10/2022 और 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और 'सेबी' सर्कुलर नं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 उसके बाद सर्कुलर नं. सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक जनवरी 05. 2023 एवं नोटिस में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसायों को संचालित करने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए अन्य सभी लागू कानून और परिपत्र के अनुपालन में, कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को सुबह 11:30 बजे, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां जिसमें वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न होने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज शामिल होंगे, केवल उन सदस्यों को भेजे जाएंगे। जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.paramountcables.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी www.bseindia.com और www.nseindia.com और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग) प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएम (''ई-वोटिंग'') के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में प्रदान की गई है, जो शेयरधारकों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर लागू कानूनों के अनुसार शीघ्र ही भेजी जाएगी। शेयरधारकों को आगे यह भी सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91

और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर ट्रांसफर पुस्तकें ,कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का रिकॉर्ड लेने के उद्देश्य से शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित)

यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत है, तो वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण के साथ एजीएम की सूचना आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकत नहीं किया है, तो कपया वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल-आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:

शेयरधारकों से अनरोध है कि वे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी') द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनसार अपने डीमैट खाते में अपना विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

भौतिक धारिता :

दिनांकः 31.08.2023

स्थानः नई दिल्ली

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक के लिए

अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नं.. बैंक खाते का विवरण और / या सेबी द्वारा निर्धारित फॉर्म-आईएसआर-1 और कंपनी के साथ निर्धारित अन्य प्रासंगिक फॉर्म में अन्य विवरण, कंपनी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबलहाइटस, पहली मंजिल,प्लॉट नं. एनएच-2, सी-1 ब्लॉक,एलएससी, जनकपुरी,नई दिल्ली-110058.फोनः

011-41410592 / 93 / 94, टे ली फै क्सः 011-41410591, ईमे लआई डी: kyc@linkintime.co.in,वेबसाइटः www.linkintime.co.in को प्रस्तृत करें। इस संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित प्रासंगिक फॉर्म निवेशक सेवा-केवाईसी अनुपालन के तहत आरटीए की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर उपलब्ध हैं और शेयरधारकों के उपयोग

एवं जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.paramountcables.com/updates पर भी उपलब्ध हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे नोट करें और अपना विवरण समय पर अपडेट कृते पैरामाउंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड

> हस्ता /-राशि गोयल

दिनांक : 31-08-2023

स्थान : मुकेरियां

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

# विशेष रेलगाड़ी का संचालन

रेलयात्रियों के सुविधाजनक आवागमन हेतु रेलवे द्वारा रक्षा बंधन त्यौहार के सम्बन्ध में निम्नलिखित विशेष रेलगाड़ी का संचालन निम्न समय-सारणी के अनुसार किया जाएगा:-

04111/04112 प्रयागराज जं. – आनन्द विहार (ट.)– प्रयागराज जं. सुपरफास्ट स्पेशल रेलगाड़ी (2 फेरे)

वेन्यमानी व	i. 04111	ĭ \ \	वेन्याची व	i 0/112
	प्रस्थान	📗 स्टेशन 📍	रेलगाड़ी सं. 0411 आगमन प्रस्थान	
आगमन	20:30	प्रयागराज जं.	19:00	अस्थान 
07:15	227	आनन्द विहार(ट.)	(22)	09:30

चलने की तिथि : 04111 प्रयागराज जं. से दिनांक 03.09.2023 (रविवार) को एवं 04112 आनन्द विहार (ट.) से दिनांक 04.09.2023 (सोमवार) को **स्थानः** प्रथम वाता., २ टियर वाता., ३ टियर वाता., शयनयान एवं सामान्य श्रेणी ।

रेलयात्रियों से अनुरोध है कि किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष सं. 139 पर संपर्क करें अथवा रेलवे की वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in अथवा NTES App. देखें।

रेलमदद हेल्पलाइन 139 रेलमदद वेबसाइटः https://enquiry.indianrail.gov.in देखें एवं रेलमदद ऐप डाउनलोड करें।

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013 शाखा पता : 9वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई-1,

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित नियम 8(6) के तहत) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

# ऋण खाता सं. TCFLA0386000011068619 तथा जीईसीएल ऋण खाता सं.

TCFLA0359000010890292 : श्री कौशल किशोर मिश्रा निम्नलिखित ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सचना दी जाती है कि टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभृत लेनदार/टीसीएफएसएल) के पास गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका कब्जा टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लि. (प्रतिभृत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, ''जैसे है जहाँ है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है और आश्रय रहित'' आधार पर 10 अक्टूबर, 2023 को बिक्री की जायेगी।

जबिक प्रतिभूत आस्ति का विक्रय प्रतिभूत ऋण की वसूली के लिए किया जाना है और जबिक ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/जमानती अर्थात (1) श्री कौशल किशोर मिश्रा, (2) श्रीमती रजनी मिश्रा; दोनों निवासी मकान नंबर 11/388, तेलीवाडा, शाहदरा, नई दिल्ली-110032; (3) मैसर्स तुलसी साडी सेंटर, मकान नं. 11/388, तेलीवाडा, शाहदरा, नई दिल्ली-110032 से धारा 13(2) के तहत मांग सूचना दिनांक 21.06.2022 के माध्यम से 21.06.2022 तक ऋण खाता सं. TCFLA0386000011068619 तथा जीईसीएल ऋण खाता TCFLA0359000010890292 के माध्यम से मांगकृत रु. 47,22,407/- (रुपये सैंतालीस लाख बाईस हजार चार सौ सात मात्र) बकाया था। एतद्वारा सूचना दी जाती है कि विक्रय के किसी विलम्बन/अनिरन्तरता के उपस्थित होने पर कथित सम्पत्ति का विक्रय

ई-नीलामी के माध्यम से कथित 10 अक्टूबर, 2023 को 2 बजे अपराहन टीसीएफएसएल, शाखा कार्यालय 9वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई-1, झण्डेवालान एक्सटेंशन, दिल्ली-110055 द्वारा की जायेगी।

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार रचनात्मक/ भौतिक	आरक्षित मूल्य ( रु. )	जमा धरोहर राशि ( रु. )
छत के अधिकार के साथ पूरी तीसरी मंजिल, संपत्ति सं. II/388 पर निर्मित, खसरा संख्या 642 में से, माप 80 वर्ग मीटर यानी 96 वर्ग गज (लगभग), तेलीवाड़ा, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 की आबादी में ग्राम चंद्रावली के क्षेत्र में स्थित, विशेष रूप से बिक्री विलेख दिनांक 14/08/2012 में वर्णित, श्री कौशल किशोर मिश्रा एवं श्रीमती रजनी मिश्रा के पक्ष में निष्पादित. इसकी सीमा इस प्रकार है: पूर्वः उक्त संपत्ति का हिस्सा, पश्चिमः दूसरों की संपत्ति, उत्तरः श्री राधे शरण सचदेवा की संपत्ति, दक्षिणः गली	भौतिक	रु. 30,93,000/- (रुपये तीस लाख तिरानबे हजार मात्र)	(रुपये तीन

बिक्री के लिए रखी गई सम्पत्ति का विवरण अनुसूची में है। चल वस्तुएं/हाउस होल्ड इन्वेंट्री, यदि ऊपर वर्णित प्रतिभृत संपत्ति के भीतर पड़ी है, तो प्रतिभृत संपत्ति के साथ बिक्री के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक कि नीलामी बिक्री नोटिस में विशेष रूप से वर्णित न हो। यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास अनुसूची में वर्णित बकाये, ब्याज लागत (बिक्री लागत आदि सहित) जमा कर दी जाती है अथवा उक्त प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी के पास जमा कर दिए होने का उनकी संतुष्टि के लिए प्रमाण जमा कर दिया जाता है तो यह बिक्री रोक दी जाएगी। नीलामी के समय सामान्यतः जनसामान्य को अपनी संविदा(एं) व्यक्तिगत तौर पर जमा करने के लिए आमन्त्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी अधिकारी या व्यक्ति जिन्हें इस बिक्री के सिलसिले में किसी भी प्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करना हो, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वे बिक्री की जाने वाली सम्पत्ति में कोई हित अर्जित या अर्जित करने का प्रयास नहीं करेंगे। यह बिक्री सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार होगी। ई-नीलामी पोर्टल https://disposalhub.com के माध्यम से 10 अक्टूबर, 2023 को 2.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप. के बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित होगी। सम्पत्ति के क्रय हेत् जमा की गयी सभी संविदाओं के साथ नई दिल्ली में भुगतान योग्य 'टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड' के पक्ष में उपरोक्त के अनुसार डिमाण्ड डाफ्ट संलग्न करना होगा। सम्पत्ति का निरीक्षण 16 सितम्बर, 2023 को

नोट : इच्छुक संविदाकार अधिकृत प्राधिकारी श्री शैलेन्द्र शुक्ला, ई-मेल आईडी shailendra.shukla@tatacapital.com तथा मोबाइल नं. +918373901261 से सम्पर्क कर सकते हैं। विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात https://bitly/3R6F0sN देखें अथवा अधिकृत प्राधिकारी या सेवा प्रदाता नेक्सजेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड से सम्पर्क करें।

स्थान : नई दिल्ली. तिथि : 01.09.2023

ह./- अधिकत प्राधिकारी कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड/

# इंडियन सुक्रोज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय एवं संकर्म : जी.टी. रोड, मुकेरियां-144211, जनपद होशियारपुर (पंजाब)

दुरमाष : +91-9115110651 / 52

(ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 32वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में जानकारी

इंडियन सकोज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 32वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शनिवार, 30 सितंबर, 2023 को प्रात: 10.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विज्ञअल संसाधनों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसायों का संचालन करने के लिए आयोजित की जाएगी, जे कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपन्न संख्य 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, परिपन्न क्रमांक 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और परिपन्न स 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021 और परिपन्न सं. 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 एवं परिपन्न सं 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेवी) द्वारा निर्गत परिपन्न सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 और परिपत्र संख्या सेबी / एषओ / सीएफडी / पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 05 जनवरी. 2023 (यहां इसमें इसके बाद सामूहिक रूप में "परिपन्नों" के रूप में संदर्गित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में आयोजित की जायेगी। कंपनी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं। उपरोक्त परिपन्न के अनुसार, 32वीं एजीएम की सूचना तथा वितीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट

केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत / उपलब्ध है। उपरोक्त प्रलेख, कंपनी की देवसाइट www.muksug.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com

सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग /ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम सुचना में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने वोट डालने का एक अवसर मिलेगा। एजीएम के दौरान फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए रिमोट ई-बोटिंग / ई-बोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उठिलखित की जाएगी। जिन सदस्यों ने कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है,

2022-23 प्राप्त करने के उददेश्य के लिए नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें। कपया ई-वोटिंग यूजर आईडी और पासवर्ड, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23

प्राप्त करने के उदेश्य से विधियत इस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्क्रैन की हुई प्रति कंपनी के घारिता रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आस्टीए), एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को admin@mcsregistrars.com या isl.investor@yaducorporation.com पर एक ई-मेल के मध्यम से फोलियो नंबर, नाम प्रदान शेयरधारक के साथ शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्केन की गई प्रति और निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट या उपयोगिता बिल कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते का प्रमाण करते हुए मेजें।

आईढी), नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की धारिता स्व-प्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) को (isl.investor@yaducorporation.com) या admin@mcsregistrars.com पर भेजें।

सुचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभृतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-बोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना

वैकल्पिक रूप से शेयरधारक/सदस्यगण, उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी

हस्ता./-अनामिका राज्

फॉर्म न. आईएनसी—26 केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष

और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

**सुमंत्रा टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** के मामले में, यह कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय जी–103, **पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063,** 

सीआईएन: U74140DL2015PTC285206 है ...याचिकाकर्ता आम जनता को एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को एक आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में बदलने में सक्षम बनाने के लिए 25 जुलाई, 2023 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पृष्टि की मांग की गई है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कंपनी के प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरण से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, तो वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म भरकर या अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपत्ति की पृष्टभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2वीं तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति पंजीकत डाक द्वारा याचिकाकर्ता कम्पनी को निम्नलिखित पते पर पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए

पंजीकृत कार्यालय जी-103, पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063 कृते सुमंत्रा टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 29.08.2023

of ellipo इन्फोलियन रसच सावसज लामटड सीआईएन : U73100DL2009PLC194077

पंजीकृत कार्यालयः ८०/२८, मालवीय नगर, नई दिल्ली – ११०० १७ भारत कॉरपोरेट कार्यालयः तीसरी मंजिल, टॉवर बी, यूनिटेक साइबर पार्क सैक्टर 39 , गुरुग्राम , हरियाणा 122 0 0 2 ई—मेल : investors@infollion.com|वेबसाइट :www.infollion.com

दूरभाष:+91-124-4272967

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य दृश्य—श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम")

के माध्यम से आयोजित होने वाली 14 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना यह सुचित किया जाता है कि **इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड** के सदस्यों की **14 वीं वार्षिक** आम बैठक ("एजीएम")। ("कंपनी") गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो—विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जैसा कि 14 वीं एजीएम बुलाने वाले नोटिस में निर्धारित कार्य किया गया है । एजीएम कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें 8 अप्रैल, 2020 के परिपन्न संख्या 14 / 2020, परिपन्न संख्या 17 / 2020 दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, परिपन्न संख्या २० / २०२० दिनांक ५ मई, २०२०, परिपन्न संख्या ०२ / २०२१ दिनांक 13 जनवरी, 2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 21 / 2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, परिपत्र संख्या 02 / 2022 दिनांक 05 मई, 2022 और इसके बाद परिपत्र संख्या 10 / 2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा और सेबी / एवओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, परिपत्र सं. सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 के साथ परिपत्र सं. सेवी / एचओ / सीएफडी / पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किया गया जिसके

की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा। उपर्युक्त परिपन्नों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए 14 वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की मुचना केवल उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी 🖊 रजिस्ट्रार और टांसफर एजेंट (आरटीए यानी, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के पास पंजीकत हैं। ढेपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (एस) (डीपी) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे 14 वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पॉलन करके जल्द से जल्द कंपनी 🖊 आरटीए 🖊

द्वारा एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भीतिक उपस्थिति के बिना वीसी / ओएवीएम के माध्यम से

एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है । वीसी के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम

ढीपी के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को पंजीकृत / अपडेट / सत्यापित करें । कृपया कंपनी के आरटीए को हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर 🕒 (कंपनी 🖊 आरटीए की र्वेबसाइट में उपलब्ध) प्रदान करके अपने ईमेल पते 🗸 बँक खाते 🛮 के विवरण अपडेट करें: लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, "नोबल हाइट्स" 1 मंजिल, सी -1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के पास, जनक पुरी, नई दिल्ली - 110 058, फोन: +91-11-49411000, फैक्सः +91-11-4141001, delhi@linkintime.co.in भौतिक निम्नलिखित विवरण के साथ।

> ईमेल पंजीकरण के लिए - सदस्य के पते के समर्थन में नाम, फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, सदस्य का पता, पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और कोई भी दस्तावेज (जैसे: आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) । बैंक खाता विवरण अपडेट करने के लिए – बैंक का नाम और शाखा, बैंक खाता प्रकार और खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएस कोड और पहले शेयरधारक के नाम

पर रद चेक की प्रति। कृपया अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपडेट 🖊 सत्यापित करें और अपने संबंधित होल्डिंग | डीपी के साथ बैंक खाते का विवरण।

गननीय सदस्य गण **ध्यान दें कि 14वीं एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2022–23 की वार्षिक** रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.infollion.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी एनएसई लिमिटेड www.nseindia.com पर अपलोड की जाएगी । सदस्यों द्वारा एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी और इसकी विस्तृत प्रक्रिया एजीएमें के नोटिस में प्रदान की जाएगी। रिमोट ई—वोटिंग की अवधि **सोमवार, 25 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे से** बुधवार, 27 सितंबर, 2023 को शाम 5.00 बजे तक शुरू होगी। कट—ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक

या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य **गुरुवार, 21 सितंबर, 2023** को उपरोक्त अवधि के दौरान रिमोट ई—वोटिंग द्वारा या एजीएम के दौरान ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं । उपर्युक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की सूचना और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में है ।

बोर्ड के आदेश से इन्फोलियन रिसर्च सर्विसेज लिमिटेड के लिए

मधुमिता प्रमाणिक कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

### तिथि: 01.09.2023 स्थान : नई दिल्ली एम.नं.35693 ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः बी-09, 412, आईटीएल ट्विन टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110088 टेली: 011-45058963, CIN: L74899DL1994PLC057507

ई-मेलः brilliantportfolios@gmail.com, वेबसाइट www.brilliantportfolios.com सूचना एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 29वीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") रविवार, 24 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम

मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों ("एमसीए परिपत्र") के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित एमसीए परिपत्रों की अनुपालना में, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के संबंधित प्रावधानों और सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकृटीकरण) विनियम, 2015 ("सेबी सुचीकरण विनियमों") के अनुपालन में वि.व. 23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट) के साथ एजीएम बुलाने की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से 31 अगस्त, 2023 को उन सदस्यों को भेजी गई है जिनके

की सूचना में बताए गए अनुसार व्यापार को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। एजीएम कॉरपोरेट मामलों के

ई-मेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी")कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट अर्थात मास सर्विसेज लिमिटेड ("आरटीए") के साथ पंजीकृत हैं। एक सदस्य brilliantportfolios@gmail.com पर कंपनी को एक ई-मेल भेजकर वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति के लिए अनुरोध कर सकता है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की प्रति कंपनी वेबसाइट www.brilliantportfolios.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com

पर भी उपलब्ध होगी। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज नोटिस भेजने की तारीख से रविवार, 24 सितंबर, 2023 तक इलेक्टॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छक सदस्यों से अनरोध है कि वे brilliantportfolios@gmail.com को लिखें। सदस्य एनएसडीएल द्वारा www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट बाद तक वीसी/ओएवीएम के

माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल और कंपनी की एजीएम के लिए ई-वोटिंग इवेंट नंबर (ईवीईएन) का चयन करना। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया नोटिस में उल्लिखित वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थित को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम सनिश्चित करने के उद्देश्य से गिना जाएगा।

जीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के निर्देशः कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, सामान्य बैठक पर सचिवीय मानदंड और सेबी सचीकरण विनियमों के विनियमन 44 के अनसार कंपनी एजीएम में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में शेयरधारकों को एनएसडीएल के माध्यम से ई-वोटिंग की सविधा प्रदान करती है। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा एनएसडीएल के साथ आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी सदस्यों को सुचित

जिन शेयरधारकों के नाम कट-ऑफ तारीख यानी रविवार, 17 सितंबर, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं, वे एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत

गुरुवार, 21 सितंबर, 2022 सुबह 9 बजे (आईएसटी) रिमोट ई-वोटिंग की समाप्ति शनिवार, 23 सितंबर, 2023 शाम 5 बजे (आईएसटी) \* रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे के बाद अक्षम कर दी जाएगी और इसे केवल

एजीएम के दौरान सक्षम किया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं. लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

सदस्य जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पुस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। <sup>8</sup> जिन व्यक्तियों ने कंपनी के शेयर हासिल कर लिए हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं. वे आवश्यक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. जैसा कि नोटिस में बताया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य के लिए, यदि ई-मेल पता डीपी/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं है, तो सदस्य कंपनी को www.brilliantportfolios.com प ई–मेल भेजकर ई–मेल आईडी पंजीकृत कर सकते है, जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर उनके पास डीमटेरियलाइज्ड या भौतिक रूप में हैं तो वे इसे अपने डीपी के साथ पंजीकृत करें और यदि शेयर उनके पास हैं तो कंपनी/आरटीए के पास पंजीकृत करें।

हैं) के लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश

एनएसडीएल के साथ डीमैट लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य

सभी सदस्यों (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों/जिनके ई-मेल पते डीपी/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभृतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क विवरण नीचे दिया गया है: हेल्पडेस्क विवरण लॉगइन का प्रकार

मोड में प्रतिभृति धारक evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर या टोल फ्री नंबरः 1800 1020 990 व्यक्तिगत शेयरधारक और 1800 22 44 30 एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। सीडीएसएल के साथ डीमैट लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk. मोड में प्रतिभृति धारक evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 022-23058738 या 022-23058542-43 पर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। व्यक्तिगत शेयरधारक

कृते ब्रिलियंट पोर्टफोलियोज लिमिटेड कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

Place: Noida www.readwhere.com

Preeti Gupta Date: 31.08.2023 (Company Secretary and Compliance Officer)

<u>ठहरावः</u> फतेहपुर, कानपुर सेन्ट्रल, इटावा, टुंडला एवं अलीगढ़ स्टेशन

टाटा कैपिटल फाइनेशियल सर्विसेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क,

झण्डेवालान एक्सटेंशन. नई दिल्ली-110055 अचल सम्पत्तियों को बिक्रो हितु बिक्रो सूचना

ईएमडी, डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित सम्पत्ति की खरीद हेतु मुहरबन्द ई–नीलामी टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 9 अक्टूबर, 2023 को 5 बजे अप. तक ग्रहण की जायेगी।

XIII XII	प्रकार रचनात्मक/ भौतिक	मूल्य ( रु. )	धरोहर गशि ( रु. )
छत के अधिकार के साथ पूरी तीसरी मंजिल, संपत्ति सं. II/388 पर निर्मित, खसरा संख्या 642 में से, माप 80 वर्ग मीटर यानी 96 वर्ग गज (लगभग), तेलीवाड़ा, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110032 की आबादी में ग्राम चंद्रावली के क्षेत्र में स्थित, विशेष रूप से बिक्री विलेख दिनांक 14/08/2012 में वर्णित, श्री कौशल किशोर मिश्रा एवं श्रीमती रजनी मिश्रा के पक्ष में निष्पादित. इसकी सीमा इस प्रकार हैं: पूर्वः उक्त संपत्ति का हिस्सा, पश्चिमः दूसरों की संपत्ति, उत्तरः श्री राधे शरण सचदेवा की संपत्ति, दक्षिणः गली		रु. 30,93,000/– (रुपये तीस लाख तिरानबे हजार मात्र)	(रुपये तीन

11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच किया जा सकता है।

सीआईएन : L15424PB1990PLC010903

ईमेल आईडी : isl.investor@yaducorporation.com, वेबसाइट : www.muksug.in वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल साधनों

एवं एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होंगे।

उनसे अनुरोध है कि वे ई-वोटिंग यूजर आईडी और पासवर्ड, एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट

कृपया दीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक दीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंक लामार्थी अमौतिक

और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं। कृते इंडियन सुक्रोज लिमिटेड

स्थानः दिल्ली दिनांक: 01.09.2023

अनूप अदलखा

निदेशक डीआईएनः 03099506